

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki****Challan No. : 04/166**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	304	3.55	52.57	11.17	0.2084
2	318	1.08	72.21	10.77	0.0840
3	309	2.95	54.71	13.16	0.2124
4	362	3.75	66.52	12.52	0.3124
5	358	4.24	31.07	8.69	0.1145
6	354	3.44	57.92	13.48	0.2687
7	375	3.23	47.49	10.28	0.1576
8	327	3.37	52.44	12.70	0.2244
9	399	3.25	52.15	13.75	0.2330
10	314	2.95	55.11	13.61	0.2213
11	356	2.26	53.28	14.41	0.1736
12	333	3.5	55.50	13.60	0.2642
13	363	3.71	60.87	10.43	0.2356
14	319	3.42	55.03	12.81	0.2411
15	347	2.84	65.46	13.95	0.2593
16	384	3.82	50.86	12.60	0.2449
17	355	3.81	71.47	15.85	0.4317
18	373	3.07	57.28	13.50	0.2373
19	369	3.17	50.93	11.90	0.1921
20	372	3.32	65.13	9.03	0.1952
21	320	4.25	52.99	14.51	0.3268
22	306	3.48	60.74	7.75	0.1639
23	387	3.68	45.84	13.48	0.2274
24	374	2.98	43.01	11.18	0.1433
25	308	3.22	46.94	13.91	0.2103
26	307	2.49	37.07	12.98	0.1198
27	346	6.43	69.10	14.46	0.6424
28	349	4.13	65.73	13.84	0.3758
29	397	2.59	48.73	9.05	0.1142
30	329	3.14	52.38	13.38	0.2201
31	371	3.24	65.68	11.51	0.2449
32	305	3.62	44.33	13.11	0.2103
33	324	3.07	58.60	15.19	0.2732
34	386	2.46	57.64	4.13	0.0585
35	368	3.11	45.76	13.18	0.1875
36	380	3.36	42.92	13.89	0.2003
37	383	2.63	55.53	13.58	0.1983
38	312	3.14	52.44	13.84	0.2280
39	390	2.68	36.04	11.93	0.1152
40	303	3.79	51.22	10.52	0.2043
41	357	3.11	56.49	14.29	0.2510
42	342	3.5	61.67	14.01	0.3024
43	351	3.28	68.81	13.84	0.3123
44	343	4.11	67.16	15.53	0.4287

45	353	2.9	49.03	14.66	0.2085
46	345	3.28	55.40	12.44	0.2260
47	398	3.75	42.26	14.08	0.2231
48	392	3.56	34.39	11.02	0.1349
49	359	3.28	58.18	14.03	0.2676
50	301	6.74	52.55	13.82	0.4893
51	376	3.58	43.06	12.49	0.1926
52	339	2.27	45.01	10.44	0.1067
53	394	4.29	48.79	13.77	0.2883
54	366	3.32	60.28	13.55	0.2712
55	360	4.37	42.92	11.86	0.2224
56	334	3.33	60.17	12.73	0.2551
57	365	3.63	65.04	8.16	0.1928
58	393	3.46	46.59	14.27	0.2301
59	391	3.01	38.85	12.20	0.1427
60	396	3.16	47.93	10.66	0.1615
61	367	3.47	30.92	2.59	0.0278
62	321	3.54	49.46	13.77	0.2411
63	313	3.4	59.03	11.98	0.2404
64	377	4.1	53.29	12.22	0.2669
65	323	4.25	43.57	10.97	0.2032
66	322	3.44	45.53	13.22	0.2071
67	341	3.35	66.64	15.07	0.3363
68	315	3.47	62.57	14.34	0.3113
69	379	3.55	55.24	14.72	0.2886
70	330	2.89	52.90	13.63	0.2084
71	311	3.27	45.16	10.19	0.1504
72	350	7.02	65.12	13.31	0.6086
73	370	2.82	40.78	13.98	0.1607
74	389	2.78	52.15	13.73	0.1990
75	364	3.54	56.71	7.11	0.1427
76	328	3.3	45.85	12.72	0.1924
77	337	3.3	44.45	13.18	0.1934
78	338	3.14	52.54	12.83	0.2116
79	336	4.17	57.10	15.38	0.3661
80	348	3.39	64.38	14.45	0.3153
81	332	3.43	54.88	15.31	0.2881
82	352	6.46	70.80	15.27	0.6983
83	316	4.07	64.00	12.88	0.3354
84	340	3.39	38.90	14.14	0.1865
85	382	2.73	54.46	13.37	0.1987
86	400	3.2	50.60	12.00	0.1942
87	361	5.27	56.85	9.67	0.2898
88	302	4.04	55.99	12.97	0.2933
89	331	2.76	51.72	13.57	0.1938
90	310	3.36	52.85	13.55	0.2406
91	335	3.41	53.52	14.52	0.2650
92	395	3.09	40.85	15.01	0.1894
93	344	3.39	68.98	15.37	0.3593
94	325	1.8	46.80	14.02	0.1181

95	381	3.58	57.68	10.61	0.2191
96	317	3.39	54.66	14.20	0.2631
97	378	3.83	54.99	14.53	0.3060
98	388	3	45.47	12.62	0.1722
99	326	3.37	51.76	12.62	0.2201
100	385	3.25	63.68	7.18	0.1485

Name of Division : Barabanki **Challan No. : 03/165**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	231	3.01	53.08	13.55	0.2164
2	224	4.18	50.21	12.43	0.2608
3	227	9.56	66.55	13.84	0.8805
4	290	3.11	61.44	12.91	0.2466
5	238	3.45	62.97	13.29	0.2888
6	208	2.03	61.23	11.92	0.1482
7	203	4.01	66.38	15.95	0.4247
8	225	7.98	60.15	13.85	0.6647
9	205	3.74	69.51	15.85	0.4121
10	275	3.89	44.30	12.93	0.2229
11	207	3.17	67.14	13.54	0.2882
12	215	4.08	71.83	13.77	0.4035
13	277	3.51	52.91	11.96	0.2222
14	283	3.26	56.77	8.46	0.1565
15	274	2.58	58.85	12.40	0.1883
16	292	2.86	48.47	13.45	0.1865
17	216	3.48	68.63	12.81	0.3059
18	251	3.33	45.53	12.96	0.1965
19	237	2.94	55.08	12.24	0.1982
20	269	3.52	63.45	12.88	0.2876
21	268	2.53	70.35	12.44	0.2214
22	226	4.81	54.07	10.50	0.2732
23	230	3.77	45.51	6.57	0.1127
24	254	1.68	34.11	11.11	0.0637
25	261	3.38	53.35	11.04	0.1991
26	270	1.92	68.06	15.40	0.2012
27	255	2.83	42.60	12.39	0.1494
28	291	2.68	45.25	13.75	0.1667
29	293	3.42	54.46	13.02	0.2425
30	242	4.3	52.87	11.92	0.2709
31	223	4.2	48.28	13.98	0.2835
32	214	4.22	70.32	13.98	0.4148
33	246	3.42	45.28	13.03	0.2018
34	265	3.39	58.36	14.17	0.2804
35	250	4.71	59.29	10.09	0.2817
36	296	3.38	46.85	10.80	0.1710
37	279	3.29	70.15	14.06	0.3244
38	217	3.23	60.81	12.74	0.2503
39	280	3.23	55.95	12.12	0.2190
40	297	3.18	50.02	12.63	0.2010
41	213	3.36	65.19	9.86	0.2160

42	211	3.77	71.25	13.70	0.3680
43	239	7.41	64.79	14.52	0.6973
44	272	2.95	67.43	10.32	0.2053
45	288	3.58	58.61	10.71	0.2248
46	281	3.26	47.79	12.87	0.2005
47	219	4.21	63.12	13.04	0.3465
48	220	4.21	61.81	13.01	0.3385
49	273	0.72	64.51	15.18	0.0705
50	256	3.29	56.52	13.22	0.2458
51	267	3.51	53.99	11.48	0.2176
52	248	3.18	41.30	12.40	0.1628
53	234	3.23	53.40	9.51	0.1641
54	253	3.71	44.47	12.48	0.2059
55	222	3.4	67.10	13.19	0.3009
56	221	4.26	67.62	12.88	0.3710
57	235	3.21	58.14	13.16	0.2456
58	300	6.84	57.20	14.49	0.5670
59	295	2.5	47.96	14.37	0.1722
60	257	2.34	56.01	7.93	0.1039
61	286	3.41	43.27	13.38	0.1974
62	206	3.24	70.24	13.34	0.3036
63	241	8.52	58.33	13.30	0.6612
64	218	4.3	64.72	12.96	0.3608
65	294	2.6	43.96	13.33	0.1524
66	262	3.27	67.42	8.45	0.1864
67	260	3.27	45.43	12.85	0.1910
68	244	3.02	55.49	13.97	0.2341
69	233	2.63	41.04	2.73	0.0295
70	263	3.2	39.60	14.60	0.1850
71	243	4.61	57.77	12.07	0.3213
72	264	2.91	51.84	3.76	0.0567
73	252	3.41	47.68	11.45	0.1862
74	236	3.19	62.18	11.53	0.2287
75	228	4.85	50.23	13.28	0.3235
76	247	3.44	70.54	15.03	0.3646
77	245	3.46	49.45	13.04	0.2232
78	285	3.61	67.23	9.62	0.2336
79	240	4.6	53.81	10.80	0.2673
80	276	3.66	39.75	13.69	0.1991
81	202	3.34	64.94	13.32	0.2889
82	204	3.52	57.04	15.57	0.3126
83	258	3.16	53.39	9.83	0.1659
84	212	4.19	68.82	12.02	0.3465
85	284	3.93	51.06	13.49	0.2708
86	289	3.13	58.55	12.91	0.2366
87	278	3.36	59.30	14.28	0.2846
88	282	3.15	58.82	12.87	0.2385
89	229	3.7	40.74	13.50	0.2035
90	201	4.21	59.28	15.60	0.3894
91	287	2.9	47.56	12.62	0.1740

92	298	3.79	59.97	10.22	0.2323
93	232	1.59	72.01	15.57	0.1782
94	299	3.37	45.32	13.39	0.2046
95	271	1.26	64.14	15.50	0.1252
96	259	1.58	41.47	15.77	0.1033
97	209	1.32	58.72	15.33	0.1188
98	210	4.09	59.47	12.98	0.3157
99	249	3.43	70.14	14.81	0.3564
100	266	2.75	60.24	14.61	0.2420

Date: 29.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki (Bareilly)****Challan No. : 06/177**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	501	6.17	39.48	12.99	0.3165
2	502	7.71	43.64	12.99	0.4372
3	503	7.15	47.85	14.59	0.4991
4	504	7.05	45.22	13.49	0.4301
5	505	9.17	47.12	14.3	0.6181
6	506	7.04	42.8	14.28	0.4301
7	507	4.8	45.73	13.05	0.2866
8	508	4.49	55.69	13.59	0.3399
9	509	9.66	53.55	14.17	0.7332
10	510	4.57	54.26	13.95	0.3459
11	511	4.44	45.98	14.05	0.2868
12	512	4.29	45.77	13.37	0.2625
13	513	4.59	50.74	14.33	0.3337
14	514	4.34	52.99	14.64	0.3368
15	515	4.72	50.15	14.36	0.3398
16	516	4.49	45.51	14.06	0.2874
17	517	3.63	51.03	14.83	0.2748
18	518	3.03	48.52	15.09	0.2218
19	519	1.56	52	12.87	0.1044
20	520	4.18	43.02	14.55	0.2617
21	521	4.01	42.93	12.51	0.2153
22	522	3.33	45.16	15.37	0.2311
23	523	4.38	47.7	11.72	0.2448
24	524	3.84	50.99	11.87	0.2323
25	525	7.94	52.78	11.84	0.4963
26	526	4.16	47.48	4.91	0.0969
27	527	4.54	42.95	13.22	0.2579
28	528	4.46	48.08	15.08	0.3234
29	529	4.47	48.51	14.16	0.3071
30	530	5.11	41.59	15.85	0.3367
31	531	4.3	40.78	12.21	0.2141
32	532	4.45	47.42	14.38	0.3035
33	533	4.71	44.08	14.68	0.3047
34	534	4.98	55.11	14.82	0.4069
35	535	7.34	48.75	13.66	0.4888
36	536	4.46	47.56	14.11	0.2993
37	537	4.41	42.94	13.46	0.2549
38	538	8.67	47.9	13.99	0.5809
39	539	7.85	56.01	13.82	0.6076
40	540	3.26	54.82	15.05	0.269
41	541	7.64	56.57	13.4	0.5791
42	542	7.33	47.61	14.03	0.4896
43	543	4.33	50.48	14.03	0.3066
44	544	7.32	44.85	13.31	0.437

45	545	7.14	52.04	14.53	0.5398
46	546	7.46	46.66	13.63	0.4745
47	547	7	46.73	14.21	0.4648
48	548	4.19	47.09	14.84	0.2929
49	549	7.21	49.13	14.29	0.5061
50	550	4.67	47.59	12.8	0.2844
51	551	4.33	48.99	13.96	0.2962
52	552	4.35	48.86	13.69	0.291
53	553	4.02	41.39	15	0.2496
54	554	4.25	46.3	13.33	0.2622
55	555	4.2	51.97	14.74	0.3217
56	556	4.18	44.41	13.31	0.247
57	557	7.75	53.14	14.66	0.6037
58	558	7.97	52.5	14.25	0.5962
59	559	4.77	50.5	14.06	0.3387
60	560	6.98	54.51	14.84	0.5647
61	561	7.52	51.43	14.82	0.573
62	562	4.87	51.37	14.93	0.3735
63	563	4.37	47.43	13.81	0.2862
64	564	7.94	52.25	13.97	0.5796
65	565	4.51	45.1	12.59	0.2562
66	566	7.51	47.71	14.27	0.5114
67	567	8.12	50.57	14.44	0.5928
68	568	7.34	51.41	15.23	0.5747
69	569	4.69	46.67	15.02	0.3288
70	570	4.28	38.01	14.84	0.2414
71	571	4.32	42.25	12.73	0.2324
72	572	4.21	50.98	15.03	0.3225
73	573	4.38	39.6	13.59	0.2356
74	574	1.08	50.27	7.12	0.0387
75	575	4.19	46.85	14.36	0.282
76	576	7.04	38.17	13.28	0.3569
77	577	3.55	52.99	14.97	0.2815
78	578	3.64	47.68	11.26	0.1955
79	579	4.9	31.76	10.2	0.1588
80	580	4.29	38.91	14.19	0.2368
81	581	4.32	52.67	10.54	0.2398
82	582	4.97	52.92	14.21	0.3737
83	583	6.87	41.26	14.3	0.4053
84	584	7.27	45.73	13.71	0.4558
85	585	3.74	49.86	12.19	0.2274
86	586	7.4	37.38	13.32	0.3685
87	587	2.04	44.23	8.91	0.0804
88	588	7.1	44.96	13.72	0.4381
89	589	4.54	48.53	14.26	0.3142
90	590	3.68	51.44	14.6	0.2764
91	591	3.14	51.71	13.56	0.2201
92	592	4.24	46.74	14.21	0.2815
93	593	1.85	40.27	9.66	0.072
94	594	4.21	55.6	13.9	0.3254

95	595	4.58	45.49	13.28	0.2766
96	596	6.94	41.89	10.12	0.2943
97	597	7.18	41.54	13.6	0.4057
98	598	8.17	38.69	11.79	0.3726
99	599	3.25	43.42	9.81	0.1384
100	600	3.68	39.4	9.37	0.1358

Name of Division : Barabanki (Bareilly)			Challan No. : 05/156		
--	--	--	-----------------------------	--	--

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	401	8.68	46.5	13.51	0.5451
2	402	4.87	50.06	13.4	0.3268
3	403	8.39	51.33	13.87	0.5974
4	404	5.03	46.07	13.96	0.3234
5	405	7.29	49.87	14.48	0.5263
6	406	4.85	45.81	15.87	0.3526
7	407	7.48	58.12	13.2	0.5737
8	408	9.48	55.96	13.69	0.7262
9	409	4.95	54.02	14.51	0.3881
10	410	8.21	58.25	13.34	0.6379
11	411	4.19	53.89	14.68	0.3314
12	412	8.16	57.28	14.3	0.6683
13	413	3.91	47.56	12.72	0.2366
14	414	4.13	37.34	14.41	0.2222
15	415	4.26	42.29	12.67	0.2283
16	416	6.8	54.6	15.27	0.5671
17	417	4.3	50.49	14.72	0.3195
18	418	6.9	56.01	15.37	0.5941
19	419	3.49	52.42	13.91	0.2544
20	420	4.62	45.34	13.96	0.2924
21	421	6.75	42.69	13.96	0.4023
22	422	4.66	45.63	13.87	0.295
23	423	4.46	42.94	14.3	0.2738
24	424	7.86	45.36	14.95	0.5329
25	425	3.54	40.2	13.21	0.188
26	426	7.42	42.28	14.38	0.4511
27	427	3.29	46.64	13.77	0.2112
28	428	7.19	44.17	14.2	0.4508
29	429	7.06	53.79	15.97	0.6065
30	430	7.69	41.59	14.38	0.4599
31	431	0.86	47.9	8.25	0.034
32	432	7.8	46.58	13.87	0.5039
33	433	7.56	49.69	15.23	0.5723
34	434	8.22	43.47	13.07	0.4669
35	435	4.56	49.6	14.33	0.3242
36	436	7.37	49.24	13.85	0.5026
37	437	4.56	52.33	14.52	0.3466
38	438	7.42	48.87	14.16	0.5135
39	439	4.6	49.05	13.52	0.305
40	440	4.04	43.81	14.17	0.2509
41	441	3.13	44.85	16.63	0.2335

42	442	2.02	64.64	15.13	0.1976
43	443	7.07	46.95	13.87	0.4603
44	444	7.04	43.31	13.99	0.4266
45	445	3.7	43.69	12.15	0.1965
46	446	4.56	36.42	13.51	0.2244
47	447	8.01	39.27	12.96	0.4077
48	448	3.51	44.21	12.67	0.1966
49	449	9.23	40.4	12.72	0.4744
50	450	4.68	43.01	12.44	0.2504
51	451	4.03	42.86	12.27	0.212
52	452	3.94	33.53	12.38	0.1635
53	453	3.9	40.39	12.21	0.1923
54	454	8.17	40.18	12.12	0.3979
55	455	4.57	46.91	13.22	0.2833
56	456	4.3	43.53	12.86	0.2408
57	457	4.27	40.37	14.09	0.243
58	458	3.86	52.06	14.93	0.2999
59	459	6.55	44.97	12.74	0.3753
60	460	4.46	53.1	13.54	0.3207
61	461	4.53	49.43	12.85	0.2877
62	462	3.01	44.23	15.65	0.2083
63	463	2.42	52.31	15.54	0.1967
64	464	7.23	45.35	12.52	0.4107
65	465	3.21	50.49	14.81	0.2401
66	466	3.31	41.59	13.83	0.1903
67	467	4	46.82	13.93	0.2608
68	468	3.87	51.08	14.8	0.2926
69	469	4.58	41.94	13.33	0.256
70	470	4.51	50.93	14.2	0.3261
71	471	4.09	45.89	14.69	0.2757
72	472	4.33	50.32	15.52	0.3382
73	473	4.23	48.26	14.21	0.2902
74	474	7.1	55.62	15.82	0.6248
75	475	7.08	55.6	15.72	0.6188
76	476	4.34	40.8	13.8	0.2443
77	477	7.56	49.16	13.36	0.4967
78	478	4.47	40.07	7.14	0.1278
79	479	4.14	41.67	12.05	0.2078
80	480	8.46	47.14	13.73	0.5474
81	481	7.94	38.57	14.42	0.4415
82	482	4.94	45.17	14.74	0.329
83	483	8.25	47.3	14.06	0.5486
84	484	8.11	41.34	13.16	0.4412
85	485	8.13	41.93	13.59	0.4634
86	486	8.1	40.55	13.14	0.4317
87	487	8.01	43.3	13.44	0.4662
88	488	4.36	36.42	12.77	0.2027
89	489	7.43	42.07	13.81	0.4317
90	490	7.69	45.54	13.44	0.4706
91	491	8.28	46.8	14.36	0.5564

92	492	4.18	49.65	15.15	0.3143
93	493	3.9	47.95	12.3	0.2301
94	494	3.73	36.54	12.29	0.1675
95	495	4.08	35.16	12.29	0.1763
96	496	3.59	43.47	14.38	0.2244
97	497	4.45	41.6	12.55	0.2323
98	498	4.32	41.94	12.99	0.2354
99	499	4.09	52.17	15.26	0.3256
100	500	3.59	47.89	14.14	0.243

Name of Division : Barabanki (Bareilly)

Challan No. : 07/157

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	682	3.99	45.34	13.78	0.2494
2	631	4.86	52.32	14.49	0.3684
3	689	7.75	36.58	16.73	0.4743
4	680	4.27	40.45	15.23	0.2630
5	665	4.85	48.02	14.41	0.3356
6	663	3.97	55.94	14.05	0.3120
7	690	9.08	44.52	14.67	0.5929
8	653	7.08	46.88	13.08	0.4340
9	676	7.53	37.05	13.47	0.3757
10	647	4.33	49.49	11.01	0.2360
11	632	4.36	49.93	13.96	0.3039
12	648	4.22	53.76	10.19	0.2313
13	602	3.52	46.49	13.90	0.2274
14	645	3.78	33.38	11.47	0.1448
15	670	4.97	55.24	14.19	0.3896
16	677	7.05	32.27	13.82	0.3144
17	634	4.56	49.91	12.96	0.2950
18	673	7.56	51.58	14.31	0.5579
19	605	3.32	39.80	10.93	0.1444
20	692	7.25	48.13	13.88	0.4843
21	633	7.52	52.65	13.88	0.5497
22	686	7.22	49.24	13.93	0.4953
23	635	4.35	50.23	13.94	0.3045
24	700	4.68	30.14	13.64	0.1923
25	641	3.93	44.94	14.13	0.2496
26	661	4.43	49.07	13.12	0.2853
27	640	3.87	43.45	13.05	0.2194
28	614	3.71	32.74	11.91	0.1447
29	621	3.53	43.79	13.52	0.2090
30	672	7.2	54.25	13.55	0.5292
31	685	3.58	46.64	13.06	0.2180
32	693	7.39	48.54	14.77	0.5299
33	611	4.11	46.60	12.47	0.2388
34	668	3.98	42.68	14.43	0.2452
35	636	7.47	48.17	13.81	0.4968
36	660	3.73	53.20	13.89	0.2756
37	637	7.26	55.32	15.08	0.6055
38	671	3.9	56.41	13.90	0.3058

39	610	3.29	54.64	10.32	0.1856
40	639	6.72	48.29	13.87	0.4502
41	657	4.28	36.40	14.09	0.2196
42	604	4.04	39.97	12.23	0.1976
43	628	4.17	36.55	12.01	0.1831
44	698	9.48	35.38	14.16	0.4749
45	683	4.43	47.50	13.73	0.2888
46	669	7.11	54.59	13.83	0.5368
47	615	3.88	42.57	12.85	0.2122
48	622	8.38	45.90	13.40	0.5154
49	681	4.25	49.19	14.29	0.2988
50	664	9.29	62.71	14.32	0.8342
51	607	4.29	37.47	12.33	0.1982
52	624	5.04	44.60	12.58	0.2827
53	646	8.12	36.86	14.16	0.4239
54	697	4.62	39.18	12.00	0.2171
55	623	8.1	45.53	13.29	0.4901
56	642	4.47	54.38	14.55	0.3536
57	603	3.42	43.18	12.39	0.1830
58	656	4.72	48.88	13.73	0.3167
59	674	6.42	58.52	14.54	0.5463
60	666	4.54	48.15	14.14	0.3092
61	651	8.54	45.51	10.09	0.3920
62	619	2.14	43.93	13.89	0.1305
63	658	7.08	48.91	13.78	0.4772
64	667	4.76	46.36	13.44	0.2965
65	688	7.56	40.18	14.46	0.4392
66	612	3.9	42.54	13.14	0.2180
67	675	3.81	60.18	15.19	0.3482
68	699	4.1	45.71	14.48	0.2714
69	617	4.32	40.06	13.21	0.2285
70	694	4.26	42.92	12.98	0.2373
71	618	3.74	41.95	14.76	0.2315
72	654	4.25	42.05	14.03	0.2507
73	678	3.54	39.01	14.64	0.2021
74	629	7.88	44.51	15.19	0.5327
75	655	4.54	38.95	10.99	0.1943
76	608	3.3	36.94	12.34	0.1505
77	626	7.95	52.71	14.02	0.5875
78	616	1.32	55.55	15.45	0.1133
79	638	8.65	53.33	13.58	0.6263
80	659	6.8	43.46	14.50	0.4284
81	652	6.49	50.87	12.76	0.4212
82	644	4.32	36.50	13.26	0.2091
83	687	4.72	40.47	14.41	0.2752
84	650	4.33	48.59	11.90	0.2503
85	684	4.46	45.34	14.91	0.3015
86	643	3.72	34.99	11.03	0.1436
87	627	7.77	48.70	13.06	0.4942
88	691	4.61	43.21	12.31	0.2453

89	695	4.53	37.85	11.20	0.1921
90	696	4.35	42.77	13.00	0.2419
91	630	4.47	49.03	14.64	0.3209
92	679	4.45	40.54	13.17	0.2376
93	649	7.25	46.41	11.70	0.3937
94	625	7.67	47.49	13.64	0.4970
95	606	3.43	44.93	12.49	0.1924
96	609	4.35	46.81	12.50	0.2545
97	601	3.36	40.43	14.69	0.1996
98	613	6.44	40.27	14.68	0.3806
99	662	4.04	40.04	14.64	0.2367
100	620	5.58	50.63	13.85	0.3912

Name of Division : Barabanki (Bareilly)

Challan No. : 10/160

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	901	7.91	47.35	14.7	0.5505
2	902	4.63	52.6	14.98	0.3648
3	903	4.76	51.43	13.36	0.327
4	904	4.59	52.3	14.23	0.3415
5	905	7.4	54.92	14.64	0.595
6	906	4.9	50.77	15.23	0.3788
7	907	9.3	54.24	14.33	0.7226
8	908	8.1	54.49	13.95	0.6156
9	909	8.91	53.22	13.72	0.6504

Date: 28.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki****Challan No. : 05/167**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	401	3.15	40.01	12.3	0.155
2	402	3.22	61.59	13.15	0.2608
3	403	4.32	51.13	14.02	0.3097
4	404	4.38	47.65	13.58	0.2834
5	405	3.68	52.83	7.33	0.1424
6	406	3.73	52.87	10.04	0.1981
7	407	3.78	45.43	13.05	0.2242
8	408	3.9	40.38	12.26	0.1931
9	409	4.2	44.86	12.26	0.231
10	410	3.41	51.04	13.17	0.2292
11	411	3.71	63.38	13.82	0.325
12	412	3.32	58.69	13.34	0.26
13	413	3.63	70.01	14.86	0.3775
14	414	3.49	50.61	11.54	0.2038
15	415	3.55	47.21	8.07	0.1353
16	416	3.58	51.6	5.06	0.0934
17	417	3.44	57.29	5.46	0.1077
18	418	3.18	52.09	14.17	0.2347
19	419	3.48	52.73	14.58	0.2676
20	420	3.6	57.93	14.79	0.3085
21	421	4.06	66.32	13	0.35
22	422	3.44	59.44	13.06	0.2669
23	423	3.39	61.33	14.23	0.2959
24	424	3.64	60.01	13.7	0.2992
25	425	3.98	73.41	13.98	0.4083
26	426	3.55	53.31	10.95	0.2073
27	427	3.45	58.87	13.95	0.2832
28	428	4.17	76.1	14.95	0.4745
29	429	7.04	71.05	15.88	0.7941
30	430	3.48	63.08	10.65	0.2339
31	431	3.41	76.3	14.15	0.3683
32	432	6.61	72.24	15.6	0.7449
33	433	3.4	72.96	15.57	0.3862
34	434	1.63	37.61	14.38	0.0882
35	435	3.26	47.76	11.06	0.1721
36	436	3.39	52.42	6.75	0.12
37	437	3.54	50	12.22	0.2163
38	438	3.56	67.82	13.17	0.3179
39	439	3.59	66.14	14.62	0.3472
40	440	3.46	63.68	15.23	0.3356
41	441	3.51	68.83	14.44	0.3489
42	442	4.02	67.6	13.15	0.3574
43	443	4.59	66.43	13.32	0.4062
44	444	4.21	70.77	14.78	0.4404

45	445	2.28	65.51	13.14	0.1963
46	446	2.22	66.94	13.7	0.2036
47	447	3.44	71.3	13.52	0.3316
48	448	8.42	70.49	13.22	0.7847
49	449	5.5	66.13	13.53	0.4922
50	450	4.75	68.55	13.9	0.4527
51	451	7.19	62.64	14.21	0.6399
52	452	3.87	63.69	13.85	0.3413
53	453	6.52	63.29	13.71	0.5659
54	454	3.61	66.28	14.74	0.3527
55	455	4.13	68.78	13.51	0.3837
56	456	4.18	71.78	13.5	0.405
57	457	7.31	69.85	13.89	0.7091
58	458	8.36	71.49	14.04	0.8393
59	459	4.07	71.84	13.32	0.3895
60	460	3.7	76.61	14.31	0.4055
61	461	6.84	67.25	12.95	0.5958
62	462	3.93	67.64	15.27	0.406
63	463	6.61	71.61	13.77	0.6517
64	464	3.23	70.37	13.73	0.312
65	465	2.33	73.79	14.81	0.2547
66	466	6.38	69.1	13.43	0.5921
67	467	4.48	69.86	15.32	0.4794
68	468	3.34	75.09	14.96	0.3751
69	469	3.49	73.18	15.28	0.3902
70	470	7.49	66.29	14.78	0.734
71	471	3.84	71.48	15.72	0.4316
72	472	4.21	73.53	15.07	0.4665
73	473	0.83	77.5	15.96	0.1027

Name of Division : Barabanki

Challan No. : 05/167

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	474	1.62	50.83	13.1	0.1079

Date: 28.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki****Challan No. : 01/163**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	50	3.13	53.29	10.25	0.1709
2	41	3.67	56.76	8.58	0.1787
3	24	3.53	44.20	12.17	0.1899
4	88	1.07	44.70	9.98	0.0477
5	29	2.42	44.05	10.33	0.1101
6	94	2.98	60.79	14.76	0.2673
7	18	3.21	52.36	13.60	0.2286
8	26	3.16	48.25	13.39	0.2041
9	99	3.38	49.50	13.45	0.2251
10	64	3.69	48.30	13.93	0.2483
11	8	3.11	49.79	12.15	0.1882
12	45	3.29	37.19	11.88	0.1454
13	84	3.18	49.26	11.21	0.1755
14	82	3.07	44.48	13.06	0.1784
15	63	3.46	39.60	12.27	0.1682
16	69	3.87	46.33	13.77	0.2469
17	86	3.52	48.81	13.03	0.2239
18	72	3.63	57.22	12.02	0.2497
19	91	2.83	50.43	13.72	0.1958
20	46	3.79	41.62	9.11	0.1436
21	93	3	54.61	13.24	0.2169
22	14	3.73	48.81	12.50	0.2275
23	57	3.45	55.64	12.98	0.2491
24	66	3.99	55.45	14.12	0.3124
25	10	2.88	49.49	13.23	0.1886
26	32	3.42	54.82	12.35	0.2315
27	27	2.87	42.76	12.25	0.1504
28	78	3.79	54.91	12.69	0.2642
29	6	3.31	44.01	12.57	0.1830
30	9	3.02	39.11	8.41	0.0994
31	59	3.75	56.72	12.62	0.2685
32	40	3.37	41.49	12.03	0.1682
33	39	3.03	40.03	12.67	0.1536
34	85	3.87	49.89	13.47	0.2601
35	53	4.08	53.86	10.99	0.2415
36	81	3.72	49.58	12.89	0.2377
37	31	3.11	50.52	13.20	0.2074
38	77	3.33	48.97	11.62	0.1895
39	55	3.27	36.22	8.14	0.0965
40	74	3.29	45.60	13.31	0.1997

41	79	3.2	48.62	11.91	0.1853
42	62	3.43	48.11	6.59	0.1087
43	2	3.73	45.23	11.50	0.1940
44	12	7.21	59.95	13.84	0.5984
45	3	3.37	65.05	15.90	0.3485
46	19	3.47	52.86	14.00	0.2568
47	16	3.03	46.65	11.81	0.1670
48	73	3.44	39.41	12.13	0.1644
49	97	3.22	69.46	14.81	0.3313
50	17	3.12	47.75	12.69	0.1891
51	70	3.5	43.24	12.60	0.1908
52	1	3.44	40.13	10.74	0.1483
53	67	3.6	53.87	13.37	0.2592
54	60	3.33	66.05	12.69	0.2791
55	80	2.98	49.14	12.54	0.1836
56	35	3.39	42.14	10.82	0.1546
57	68	3.58	43.73	13.13	0.2055
58	7	3.21	62.13	15.50	0.3091
59	56	3.4	49.60	10.89	0.1836
60	42	3.44	47.25	9.57	0.1555
61	100	3.59	56.08	13.12	0.2642
62	34	3.28	39.82	11.63	0.1519
63	36	3.57	37.41	12.08	0.1614
64	43	0.94	52.98	7.55	0.0376
65	21	3.48	58.89	11.72	0.2401
66	95	3.04	55.40	12.42	0.2092
67	83	3.04	51.69	10.31	0.1620
68	37	3.28	56.26	13.67	0.2522
69	58	3.53	55.23	11.17	0.2178
70	49	5.23	64.48	14.72	0.4963
71	87	3.37	49.85	13.54	0.2275
72	92	2.5	50.80	14.94	0.1897
73	54	3.48	47.47	12.24	0.2022
74	11	3.66	57.18	13.34	0.2793
75	76	2.7	49.36	12.74	0.1698
76	15	4.74	52.89	11.25	0.2820
77	71	3.2	51.39	14.28	0.2349
78	89	2.95	46.01	13.41	0.1820
79	47	3.16	42.74	12.68	0.1713
80	75	3.48	45.68	14.10	0.2241
81	48	3.47	54.57	13.98	0.2648
82	61	3.24	43.22	10.69	0.1497
83	4	2.56	67.64	13.05	0.2260
84	96	2.85	70.02	15.00	0.2992
85	90	2.42	49.27	14.25	0.1699
86	22	1.68	54.89	9.58	0.0884
87	38	3.47	46.30	12.53	0.2013

88	13	4.1	64.05	14.24	0.3739
89	44	3.89	47.23	12.11	0.2225
90	20	3.71	52.67	13.33	0.2604
91	5	3.49	40.49	12.45	0.1759
92	25	3.36	54.49	11.73	0.2147
93	98	3.55	45.75	13.86	0.2251
94	52	3.68	51.90	7.21	0.1376
95	23	0.73	63.95	9.65	0.0450
96	28	2.9	41.37	9.40	0.1128
97	30	3.55	41.81	12.92	0.1917
98	65	3.37	47.45	13.38	0.2140
99	33	2.96	34.62	9.85	0.1009
100	51	2.36	42.63	11.45	0.1152

Name of Division : Barabanki

Challan No. : 02/164

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	162	2.85	46.80	13.78	0.1838
2	164	3.65	38.61	8.52	0.1201
3	154	3.06	51.30	12.69	0.1992
4	107	3.32	41.99	15.08	0.2102
5	114	3.5	47.20	14.05	0.2320
6	112	3.48	52.78	14.49	0.2662
7	167	3.37	51.34	11.80	0.2042
8	158	2.78	49.61	12.60	0.1738
9	138	2.98	61.50	11.59	0.2125
10	190	3.31	55.04	10.79	0.1966
11	148	4.19	66.00	13.47	0.3725
12	146	3.65	53.54	14.72	0.2876
13	155	3.24	47.82	12.32	0.1908
14	182	4.12	52.38	15.22	0.3284
15	199	1.18	69.04	13.17	0.1073
16	135	3.58	52.32	14.51	0.2717
17	200	1.51	72.21	15.14	0.1650
18	156	2.99	45.74	13.21	0.1806
19	121	3.32	56.43	14.50	0.2716
20	106	3.18	59.22	13.31	0.2506
21	147	4.06	69.05	12.83	0.3597
22	119	3.53	39.88	11.79	0.1659
23	195	4.3	70.39	12.77	0.3866
24	179	2.87	47.95	11.82	0.1627
25	196	6.62	69.47	14.68	0.6752
26	141	3.66	42.62	12.60	0.1965
27	102	3.37	55.67	13.13	0.2463
28	130	0.77	63.42	11.84	0.0578
29	171	1.67	76.25	13.72	0.1747
30	124	2.94	73.81	11.18	0.2425
31	128	3.48	49.28	12.58	0.2158
32	143	3.54	38.87	14.28	0.1965
33	159	2.83	56.23	12.93	0.2057
34	198	4.15	60.56	13.16	0.3308

35	197	3.71	63.92	14.63	0.3469
36	161	3.3	52.29	9.49	0.1637
37	134	3.45	42.02	12.78	0.1853
38	168	3.85	52.71	9.50	0.1929
39	157	3.06	55.00	11.95	0.2010
40	123	3.54	58.10	15.23	0.3133
41	152	3.63	47.15	15.97	0.2733
42	115	3.35	50.06	15.08	0.2529
43	104	3.46	44.27	11.95	0.1830
44	150	4.12	52.83	13.69	0.2979
45	153	4.16	53.62	14.70	0.3278
46	185	3.46	56.50	13.89	0.2716
47	144	3.29	54.58	6.25	0.1122
48	149	6.54	64.76	12.80	0.5422
49	178	3.67	48.31	9.29	0.1648
50	113	3.3	47.85	13.25	0.2092
51	109	2.56	44.71	13.60	0.1556
52	120	4.54	48.41	14.42	0.3169
53	116	3.19	35.19	13.90	0.1560
54	111	3.09	52.91	15.37	0.2512
55	186	3.5	45.67	13.99	0.2236
56	193	4.09	63.92	15.96	0.4172
57	160	2.99	42.11	12.97	0.1633
58	136	3.53	53.79	12.66	0.2404
59	170	2.52	53.83	13.56	0.1840
60	165	3.69	48.80	12.09	0.2177
61	139	3.47	51.51	13.47	0.2408
62	145	3.85	51.20	15.00	0.2957
63	101	3.63	53.72	12.66	0.2468
64	131	0.8	77.64	16.00	0.0994
65	181	3.24	52.25	13.05	0.2210
66	125	2.91	60.27	13.79	0.2418
67	132	3.3	77.31	13.71	0.3498
68	105	2.77	57.32	13.29	0.2111
69	126	3.25	52.09	14.34	0.2428
70	180	2.88	54.24	14.03	0.2192
71	169	3.01	47.66	13.05	0.1872
72	137	3.66	66.51	12.16	0.2961
73	127	1.65	69.99	14.59	0.1685
74	176	3.92	42.78	11.73	0.1968
75	187	3.59	52.70	13.51	0.2556
76	151	3.39	50.76	13.12	0.2258
77	194	3.56	57.32	14.11	0.2880
78	129	1.27	58.34	12.24	0.0907
79	140	2.97	61.52	13.96	0.2551
80	188	2.89	47.75	11.43	0.1578
81	142	3.66	49.53	13.55	0.2456
82	133	3.55	41.05	9.89	0.1441
83	163	3.35	45.22	12.78	0.1936
84	184	3.32	50.41	13.47	0.2254

85	173	3.34	44.34	11.86	0.1757
86	108	3.28	46.71	13.23	0.2027
87	175	3.42	39.33	11.44	0.1539
88	166	3.37	44.94	9.46	0.1432
89	110	3.28	61.72	14.00	0.2834
90	118	4.46	48.69	12.69	0.2756
91	192	3.31	64.69	14.69	0.3145
92	189	3.31	55.63	15.21	0.2800
93	191	3.35	57.28	12.80	0.2456
94	103	3.49	55.16	12.26	0.2359
95	177	4.16	50.21	10.18	0.2126
96	117	3.31	45.36	13.16	0.1976
97	172	3.8	53.64	13.26	0.2702
98	183	2.13	49.05	12.72	0.1329
99	174	3.25	41.00	11.73	0.1563
100	122	3.32	43.90	13.30	0.1939

: 13.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki(Bareilly)****Challan No. : 04/155**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	301	7.58	40.28	13.23	0.404
2	302	5.93	51.35	14.37	0.4376
3	303	7.03	61.12	15.48	0.665
4	304	7.51	58.76	14.43	0.6368
5	305	7.42	60.43	15.09	0.6767
6	306	4.19	50.3	13.66	0.2879
7	307	4.37	40.59	12.61	0.2237
8	308	4.24	45.71	13.91	0.2697
9	309	7.17	48.83	14.4	0.5041
10	310	4.59	58.23	14.49	0.3874
11	311	7.04	55.36	14.22	0.554
12	312	7.16	51.1	15.3	0.5599
13	313	4.54	59.18	14.8	0.3977
14	314	9.01	55.74	15.16	0.7613
15	315	7.49	57.17	14.34	0.6142
16	316	7.74	54.96	14.68	0.6246
17	317	4.52	62.71	13.87	0.3932
18	318	7.44	60.04	15.41	0.6882
19	319	4.48	56.41	13.83	0.3494
20	320	4.63	59.57	15.7	0.4329
21	321	4.53	64.48	14.76	0.4313
22	322	4.5	65.09	15.27	0.4473
23	323	3.89	43.06	14.07	0.2357
24	324	4.07	39.64	11.63	0.1876
25	325	2.85	42.68	13.4	0.163
26	326	4.45	54.26	15.61	0.3769
27	327	3.93	56.66	14.61	0.3254
28	328	6.4	48.52	13.81	0.4288
29	329	4.29	49.16	14.32	0.302
30	330	3.46	63.27	15.16	0.3318
31	331	4.04	71.51	15.83	0.4573
32	332	4.23	52.98	13.93	0.3122
33	333	4.06	54.85	13.6	0.3029
34	334	7.18	58.53	15.38	0.6462
35	335	3.49	55.73	14.91	0.29
36	336	2.87	54.43	14.44	0.2256
37	337	4.2	55.85	15.68	0.3679
38	338	7.06	59.43	14.87	0.6241
39	339	4.17	49.07	13.61	0.2786
40	340	4.12	61.89	13.33	0.3399
41	341	8.01	62.97	15.45	0.7794

42	342	2.88	47.84	14.07	0.1938
43	343	4.61	41.07	13.32	0.2522
44	344	4.33	36.3	14.93	0.2347
45	345	5.06	48.34	13.96	0.3416
46	346	7.5	47.02	14.21	0.501
47	347	4.18	46.25	12.86	0.2487
48	348	4.14	46.06	13.44	0.2563
49	349	4.3	48.55	13.94	0.2911
50	350	4.25	46.86	15.11	0.3009
51	351	3.43	50.14	13.58	0.2336
52	352	3.63	54.57	14.88	0.2948
53	353	7.87	41.31	12.68	0.4124
54	354	4.82	46.73	12.65	0.2849
55	355	4.39	38.46	10.22	0.1725
56	356	7.4	47.43	13.14	0.461
57	357	5.1	49.76	14.01	0.3555
58	358	4.31	49.83	13.95	0.2995
59	359	3.78	46.13	13.16	0.2294
60	360	3.28	47.44	12.56	0.1955
61	361	3.64	57.69	13.64	0.2865
62	362	3.84	56.72	15.22	0.3314
63	363	3.62	44.18	12.77	0.2042
64	364	2.87	36.93	11.91	0.1263
65	365	3.32	46.99	11.15	0.174
66	366	4.39	48.55	13.66	0.2911
67	367	3.88	49.31	13.32	0.2549
68	368	4.32	50.68	13.14	0.2877
69	369	7.46	55.74	14.57	0.6058
70	370	3.66	58.12	8.36	0.1779
71	371	3.13	49.18	14.68	0.226
72	372	3.84	54	15.39	0.3191
73	373	5.31	42.79	13.39	0.3043
74	374	6.83	50.21	14.04	0.4815
75	375	5.2	47.14	13.11	0.3214
76	376	6.74	40.07	12.75	0.3444
77	377	3.77	52.33	13.99	0.276
78	378	3.72	49.56	14.23	0.2623
79	379	4.31	45.46	14.34	0.281
80	380	6.99	47.69	13.29	0.4432
81	381	7.47	45.8	13.8	0.4721
82	382	4.21	52.34	14.39	0.317
83	383	4.11	58.06	15.11	0.3604
84	384	7.98	50.12	13.53	0.541
85	385	7.52	52.98	13.5	0.5377
86	386	8	49.03	13.28	0.5208
87	387	4.02	47.31	13.74	0.2613
88	388	4.65	49	13.92	0.3171

89	389	3.94	48.6	14.67	0.2809
90	390	3.83	46.59	13.69	0.2444
91	391	6.8	54.93	13.84	0.5168
92	392	3.96	57.46	14.18	0.3227
93	393	4.12	41.61	12.79	0.2192
94	394	7.07	46.97	14.07	0.4673
95	395	6.82	44.56	12.88	0.3915
96	396	6.37	45.8	13.58	0.3962
97	397	5.01	49.12	13.95	0.3432
98	398	5.15	47.39	12.85	0.3136
99	399	9.4	56.82	13.22	0.7059
100	400	9.86	53.76	14.36	0.7612

Name of Division : Barabanki(Bareilly)

Challan No. : 03/162

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	201	8.19	58.99	13.87	0.6699
2	202	4.51	47.76	13.84	0.2981
3	203	3.78	36.22	10.24	0.1402
4	204	3.76	46.55	13.92	0.2436
5	205	7.78	58.73	15.32	0.7002
6	206	5.71	45.96	13.34	0.35
7	207	4.52	54.52	13.66	0.3367
8	208	3.89	63.1	14.79	0.3629
9	209	5.76	56.44	14.56	0.4735
10	210	6.18	56.97	15.73	0.5537
11	211	7.02	51.14	14.59	0.5237
12	212	4.33	49.02	14.75	0.3131
13	213	4.26	63.57	15.34	0.4154
14	214	8.31	54.08	14.9	0.6698
15	215	3.69	55.36	14.76	0.3015
16	216	6.93	55.01	15.98	0.6091
17	217	4.18	51.32	14.85	0.3185
18	218	8.35	61.32	15.51	0.7941
19	219	9.26	64.67	15.74	0.9427
20	220	7.83	64.22	15.82	0.7955
21	221	3.35	62.25	15.07	0.3142
22	222	7.59	56.25	14.84	0.6338
23	223	4.45	62.92	13.16	0.3685
24	224	7.33	62.49	14.82	0.6788
25	225	7.97	63.39	15.07	0.7611
26	226	7.64	61.69	15.29	0.7205
27	227	8.9	58.93	14.73	0.7725
28	228	4.2	50.53	14.33	0.3041
29	229	4.1	62.69	15.73	0.4043
30	230	8.48	65.91	15.2	0.8497
31	231	7.81	67.57	15.52	0.8193
32	232	6.87	58.87	16.88	0.6829
33	233	4.18	63.42	14.9	0.395
34	234	7.15	71.76	15.76	0.8087
35	235	7.4	71.15	15.78	0.831

36	236	6.95	70.09	15.42	0.7513
37	237	7.99	70.2	15.38	0.8629
38	238	8.78	69.09	15.65	0.9491
39	239	8.21	69.94	15.58	0.8949
40	240	8.44	70.18	15.25	0.9031
41	241	4.13	57.57	15.46	0.3676
42	242	2.91	59	13.75	0.236
43	243	6.86	57.28	14.04	0.5515
44	244	3.94	53.53	16.2	0.3416
45	245	4.5	55.66	14.89	0.373
46	246	4.47	66.89	16.06	0.4801
47	247	7.17	50.89	13.66	0.4983
48	248	6.77	51.57	15.44	0.5389
49	249	4.33	55.15	15.81	0.3776
50	250	4.3	51.48	15.89	0.3517
51	251	4.37	59.32	14.94	0.3872
52	252	7.04	61.08	15.21	0.654
53	253	4.19	63.63	15.43	0.4115
54	254	4.16	59.51	15.41	0.3815
55	255	4.28	67.52	16.37	0.4729
56	256	4.19	63.57	15.09	0.4018
57	257	4.15	69.74	15.27	0.442
58	258	7.5	63.18	14.93	0.7073
59	259	4.11	54.73	13.78	0.3099
60	260	3.62	45.08	13.18	0.215
61	261	4.26	59.56	14.56	0.3693
62	262	3.92	54.46	15.52	0.3312
63	263	3.65	60.79	16.68	0.3701
64	264	3.8	62.01	15.97	0.3762
65	265	7.32	66.51	16.3	0.7935
66	266	7.18	65.02	14.56	0.6799
67	267	6.99	60.3	13.83	0.583
68	268	8.33	68.84	15.31	0.878
69	269	3.63	64.91	16.53	0.3895
70	270	3.4	64.49	16.58	0.3635
71	271	4.36	53.43	12.56	0.2926
72	272	7.11	51.54	14.2	0.5205
73	273	6.62	43.71	17.5	0.5064
74	274	3.27	61.15	14.52	0.2904
75	275	3.83	46.73	13.97	0.2501
76	276	6.13	46.96	13.18	0.3794
77	277	5.66	60.13	14.45	0.4919
78	278	7.18	62.29	14.85	0.6641
79	279	7.92	68.58	15.14	0.8221
80	280	6.96	44.11	14.21	0.4364
81	281	3.6	53.73	14.87	0.2876
82	282	3.36	52.61	15.23	0.2691
83	283	3.64	60.41	14.77	0.3247
84	284	4.38	41.01	12.66	0.2273
85	285	4.61	43.75	12.53	0.2526

86	286	7.01	51.95	10.32	0.3757
87	287	3.69	36.57	14.3	0.193
88	288	3.56	47.85	13.75	0.2342
89	289	3.22	43.14	13.68	0.19
90	290	3.65	40.42	13.61	0.2007
91	291	6.55	59.91	15.16	0.5947
92	292	4.09	71.83	15.34	0.4507
93	293	4	65.51	14.68	0.3848
94	294	3.08	61.99	15.44	0.2948
95	295	3.24	62.39	15.72	0.3178
96	296	3.8	68.42	15.74	0.4093
97	297	3.21	43.16	15.41	0.2135
98	298	2.99	55.02	13.9	0.2287
99	299	4.3	43.18	14.4	0.2675
100	300	3.99	45.8	12.84	0.2346

: 13.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki(Bareilly)****Challan No. : 01/153**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1	3.64	43.98	12.3	0.1969
2	2	4.57	47.86	11.83	0.2587
3	3	3.42	34.65	11.83	0.1402
4	4	8.57	40.73	12.89	0.4499
5	5	4.25	39.3	13.89	0.232
6	6	7.45	37.79	13.1	0.3688
7	7	6.76	43.63	13.29	0.3921
8	8	6.25	43.68	14.74	0.4025
9	9	7.06	44.51	14.15	0.4448
10	10	4.57	49.56	14.53	0.329
11	11	7.22	43.52	13.35	0.4195
12	12	7.16	38.86	12.97	0.3609
13	13	6.83	49.27	14.15	0.4761
14	14	4.24	45.03	14.5	0.2769
15	15	4.21	45.82	14.71	0.2838
16	16	3.65	49.7	12.03	0.2183
17	17	8.06	47.7	12.18	0.4683
18	18	4.98	38.43	13.01	0.249
19	19	7.45	49.05	14.01	0.5118
20	20	7.33	48.67	13.83	0.4933
21	21	4.83	41.66	13.66	0.2748
22	22	3.83	37.22	12.71	0.1812
23	23	7.71	55.26	14.42	0.6145
24	24	2.77	46.06	10.81	0.1379
25	25	4.58	42.03	14.28	0.2748
26	26	4.86	41.01	12.36	0.2464
27	27	7.89	42.84	13.24	0.4474
28	28	4.08	41.51	13.35	0.226
29	29	7.96	46.15	14.13	0.519
30	30	4.66	51.04	13.93	0.3313
31	31	4.16	48.49	14.19	0.2862
32	32	7.92	48.01	14.56	0.5536
33	33	7.78	51.42	13.92	0.557
34	34	4.67	48.52	13.95	0.3162
35	35	4.84	49.11	13.97	0.332
36	36	7.1	52.3	14.51	0.5389
37	37	5.18	50.91	14.2	0.3745
38	38	4.74	53.42	14.19	0.3593
39	39	4.23	52.44	14.65	0.3249
40	40	7.82	47.61	14.26	0.531
41	41	7.68	49.94	14.3	0.5484
42	42	4.78	48.53	14.98	0.3475

43	43	4.37	52.31	14.61	0.3339
44	44	4.56	50.94	14.04	0.326
45	45	4.62	50.26	13.33	0.3095
46	46	5.19	49.59	13.33	0.3431
47	47	4.31	49.18	12.65	0.2681
48	48	7.15	48.62	14.75	0.5127
49	49	4.57	61.26	16.05	0.4492
50	50	4.55	38.83	13.13	0.2321
51	51	4.54	37.33	12	0.2034
52	52	4.95	48.65	13.18	0.3173
53	53	4.39	35.76	12.25	0.1923
54	54	4.75	37.88	12.3	0.2214
55	55	3.22	41.84	13.29	0.179
56	56	3.66	46.85	11.7	0.2006
57	57	6.68	48.18	13.47	0.4335
58	58	4.14	49.85	14	0.289
59	59	3.55	44.36	13.75	0.2166
60	60	4.37	53.57	12.81	0.2998
61	61	8.17	45.32	13.61	0.5041
62	62	8.76	42.05	13.37	0.4923
63	63	9.49	43.47	13.07	0.539
64	64	7.01	43.52	13.3	0.4059
65	65	8.31	50.12	14.19	0.5908
66	66	4.88	40.61	13.25	0.2625
67	67	7.19	49.09	12.83	0.453
68	68	4.58	51.25	15.22	0.3572
69	69	8.21	54.26	13.79	0.6141
70	70	5.39	45.78	14.66	0.3617
71	71	4.19	50.65	12	0.2548
72	72	4.24	48.38	13.31	0.2731
73	73	3.9	55.92	14.97	0.3264
74	74	4.11	33.66	12.54	0.1734
75	75	3.49	37.41	14.92	0.1947
76	76	3.79	51.84	13	0.2554
77	77	8.08	38.33	13.75	0.4258
78	78	3.54	47.25	11.39	0.1905
79	79	7.51	46.39	12.7	0.4423
80	80	3.69	42.74	13.48	0.2125
81	81	4.64	48.94	13.59	0.3086
82	82	4.67	56.67	14.01	0.3708
83	83	8.06	53.82	14.92	0.6472
84	84	7.86	42.68	13.17	0.4417
85	85	8.16	42.96	12.94	0.4537
86	86	3.25	51.3	13.78	0.2298
87	87	3.25	48.74	12.76	0.2022
88	88	4.31	42.91	11.63	0.2151
89	89	4.87	46.58	12.13	0.2752

90	90	5.08	49.84	10.89	0.2758
91	91	4.63	37.95	12.36	0.2171
92	92	8.21	37.08	12.24	0.3727
93	93	7.58	36.44	12.32	0.3403
94	94	8.79	38.05	14.9	0.4984
95	95	7.52	39.77	12.75	0.3813
96	96	7.83	38.91	12.34	0.3758
97	97	8.19	42.01	12.59	0.4333
98	98	4.29	40.84	13.3	0.2329
99	99	9.36	49.67	13.55	0.6299
100	100	7.49	45.7	14.31	0.4898

Name of Division : Barabanki(Bareilly)

Challan No. : 02/154

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	101	8.48	43.13	12.38	0.4528
2	102	4.64	44.37	13.21	0.2719
3	103	4.83	41.38	13.05	0.2608
4	104	8.43	45.13	11.81	0.4493
5	105	9.85	46.49	13.83	0.6334
6	106	9.41	45.47	13.22	0.5655
7	107	4.79	46.68	12.45	0.2783
8	108	8.01	46.07	13.98	0.5158
9	109	4.33	49.7	13.72	0.2953
10	110	4.17	48.15	12.36	0.2481
11	111	7.4	46.43	13.37	0.4595
12	112	7.4	49.89	13.27	0.4899
13	113	4.25	52.73	13.39	0.3
14	114	4.31	54.51	13.65	0.3207
15	115	3.33	67.79	15.37	0.347
16	116	8.36	60.86	13.85	0.7047
17	117	7.9	44.08	12.61	0.4392
18	118	2.05	49.08	11.8	0.1187
19	119	0.69	46.1	9.35	0.0297
20	120	2.31	54.47	15.75	0.1982
21	121	7.8	46.52	14.1	0.5117
22	122	4.08	66.11	15.23	0.4109
23	123	4.28	46.98	14.73	0.2962
24	124	2.82	51.44	14.09	0.2044
25	125	2.95	53.65	14.22	0.2251
26	126	8.95	48.56	13.74	0.597
27	127	4.07	56.32	15.29	0.3504
28	128	7.65	54.23	14.57	0.6043
29	129	3.53	39.09	14.33	0.1977
30	130	4.02	43.14	13.05	0.2263
31	131	2.93	47.09	13.1	0.1808
32	132	3.55	49.21	13.41	0.2343
33	133	3.33	52.45	14.01	0.2448
34	134	3.5	44.39	12.03	0.1869
35	135	4.92	42.96	12.66	0.2676

36	136	3.64	40.33	11.73	0.1722
37	137	4.46	50.14	13.36	0.2988
38	138	4.22	49.48	13.86	0.2895
39	139	4.27	43.29	14.14	0.2613
40	140	7.24	52.75	15.09	0.5763
41	141	7.56	51	12.49	0.4816
42	142	10.09	43.14	12.08	0.5257
43	143	4.99	57.5	14.09	0.4042
44	144	8	42.99	12.05	0.4144
45	145	8.19	43.67	12.59	0.4504
46	146	4.4	45.7	12.6	0.2534
47	147	9.98	49.47	14.25	0.7036
48	148	4.95	47.28	13.81	0.3232
49	149	6.95	49.13	14.13	0.4823
50	150	7.22	42.8	12.41	0.3834
51	151	7.08	49.35	14.67	0.5126
52	152	3.77	38.64	15.24	0.2221
53	153	7.44	43.58	12.39	0.4018
54	154	8.3	45.87	13.21	0.503
55	155	4.11	43.3	13.16	0.2343
56	156	4.22	43.87	13.84	0.2562
57	157	9.99	44.89	13.57	0.6084
58	158	5.47	45.95	10.64	0.2675
59	159	10.14	38.1	11.86	0.4583
60	160	3.31	44.48	10.81	0.1592
61	161	2.83	54.46	15.57	0.24
62	162	4.37	46.69	13.39	0.2731
63	163	2.92	56.23	15.51	0.2546
64	164	6.96	47.55	14.36	0.4754
65	165	4.15	43.81	14.36	0.261
66	166	3.07	44.05	11.62	0.1572
67	167	3.96	45.9	13.75	0.2499
68	168	3.77	58.31	14.58	0.3204
69	169	4.36	51.73	15.17	0.3423
70	170	8.59	69.58	15.45	0.9234
71	171	3.63	58.82	15.11	0.3227
72	172	4.2	58.52	15.43	0.3793
73	173	6.41	59.77	16.08	0.616
74	174	7.05	57.51	15.32	0.6211
75	175	4.24	58.77	15.06	0.3752
76	176	8.32	60.56	15.52	0.7821
77	177	5.46	69.13	16.39	0.6186
78	178	4.9	62.72	15.98	0.491
79	179	8.07	60.71	15.04	0.7368
80	180	6.6	62.94	15.65	0.6501
81	181	8.14	67.18	16.55	0.9052
82	182	6.91	64.87	15.89	0.7124
83	183	4.07	67.47	15.03	0.4127
84	184	6.91	65.18	15.85	0.7138
85	185	7.09	62.68	15.59	0.6927

86	186	6.78	56.85	15.48	0.5966
87	187	4.1	69.65	13.83	0.3948
88	188	4.05	65.08	15.46	0.4074
89	189	2.74	68.65	16.18	0.3044
90	190	2.9	58.92	15.89	0.2714
91	191	5.26	67.28	16.2	0.5733
92	192	2.6	62.61	14.98	0.2439
93	193	3.06	42.11	13.46	0.1735
94	194	3.91	61.26	15.7	0.3761
95	195	8.36	48.29	13.96	0.5635
96	196	4.32	55.02	12.05	0.2864
97	197	4.38	52.92	14	0.3246
98	198	3.6	51.69	13.54	0.252
99	199	3.88	42.68	14.64	0.2425
100	200	6.81	54.38	13.77	0.5101

Date: 06.08.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Ghazipur (U.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Barabanki (Bareilly)****Challan No. : 08/158**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	774	3.64	47.12	12.39	0.2126
2	710	7.54	42.48	13.51	0.4328
3	725	4.48	49.36	13.57	0.3002
4	785	4.62	50.22	14.52	0.3368
5	772	4.74	45.59	14.43	0.3119
6	766	4.28	47.89	13.87	0.2842
7	786	4.75	46.11	13.12	0.2874
8	714	4.2	44.66	13.99	0.2625
9	724	7.6	44.14	13.09	0.4393
10	715	8.12	49.02	14.73	0.5863
11	782	4.58	53.42	12.58	0.3078
12	758	4.19	38.94	12.94	0.2112
13	794	9.34	54.52	15.22	0.7752
14	702	3.66	51.99	13.06	0.2485
15	780	8.57	49.45	14.24	0.6033
16	716	4.21	54.11	10.87	0.2475
17	778	4.54	50.85	13.98	0.3228
18	718	4.73	52.33	12.88	0.3188
19	784	4.97	51.13	14.02	0.3563
20	711	4.61	37.75	14.57	0.2536
21	739	4.31	43.67	9.50	0.1789
22	719	4.66	47.28	14.00	0.3085
23	773	7.17	42.77	13.98	0.4288
24	746	4.24	43.30	13.67	0.2510
25	759	3.84	38.61	13.11	0.1943
26	788	7.89	49.78	14.72	0.5783
27	791	8.3	50.98	14.24	0.6026
28	795	4.3	51.28	15.19	0.3350
29	771	4.25	44.28	13.01	0.2448
30	775	4.71	47.01	13.70	0.3033
31	712	7.4	39.65	13.39	0.3929
32	721	7.03	42.43	13.62	0.4063
33	738	4.19	51.10	14.60	0.3126
34	762	7.61	44.38	13.84	0.4673
35	729	3.32	45.40	15.79	0.2380
36	732	4.42	43.15	13.84	0.2639
37	768	4.62	53.37	15.63	0.3853
38	749	7.44	34.74	12.32	0.3184
39	743	4.41	52.66	14.81	0.3440
40	707	4.13	56.45	14.95	0.3486
41	742	4.13	38.86	14.20	0.2280
42	790	4.83	51.16	15.13	0.3738

43	796	9.84	55.97	14.61	0.8049
44	727	7.93	42.28	12.61	0.4227
45	735	4.66	48.14	12.34	0.2768
46	757	4.3	47.35	14.57	0.2967
47	783	3.83	48.53	13.58	0.2524
48	776	5.09	46.75	13.71	0.3263
49	731	4.18	36.36	14.69	0.2232
50	722	4.21	43.35	13.89	0.2534
51	781	8.27	52.28	14.12	0.6103
52	720	4.81	46.51	13.72	0.3069
53	734	7.54	39.21	14.89	0.4403
54	703	3.88	44.24	14.24	0.2444
55	744	3.35	53.70	14.30	0.2573
56	756	4	38.35	12.91	0.1980
57	740	3.81	36.12	11.90	0.1638
58	752	8.05	43.36	14.58	0.5088
59	764	4.86	50.50	13.01	0.3193
60	769	7.25	42.34	13.39	0.4111
61	760	7.47	36.03	11.77	0.3167
62	748	7.92	43.46	14.47	0.4982
63	736	4.82	45.42	13.43	0.2940
64	713	7.48	35.16	14.16	0.3725
65	761	7.53	45.78	13.43	0.4631
66	779	8.35	53.48	14.53	0.6488
67	767	4.4	49.18	14.99	0.3243
68	728	6.29	40.61	14.16	0.3617
69	733	4.05	40.77	15.80	0.2608
70	708	4.4	49.79	11.33	0.2482
71	765	7.72	48.59	14.47	0.5427
72	723	4.15	44.01	12.13	0.2216
73	750	8.09	36.71	15.06	0.4474
74	709	7.67	45.55	13.08	0.4571
75	800	8.36	57.59	15.45	0.7440
76	745	4.24	35.97	12.65	0.1929
77	706	4.39	51.33	14.53	0.3275
78	705	7.42	47.33	12.36	0.4341
79	753	8.13	44.92	13.87	0.5065
80	793	4.5	51.31	14.05	0.3245
81	792	5.04	55.83	15.40	0.4334
82	770	7.95	42.36	14.26	0.4802
83	704	4.81	50.74	14.03	0.3425
84	755	4.46	53.78	14.35	0.3443
85	797	8.32	56.28	15.12	0.7080
86	799	9.63	54.89	14.57	0.7704
87	741	8.22	30.49	12.30	0.3083
88	730	4.42	53.75	14.31	0.3399
89	717	7.92	42.04	14.82	0.4934

90	754	8.04	45.09	14.75	0.5347
91	763	4.2	44.71	11.59	0.2176
92	701	4.64	44.06	12.78	0.2612
93	726	4.3	36.39	12.06	0.1888
94	777	4.98	46.16	15.81	0.3635
95	789	8.41	52.37	14.78	0.6509
96	747	8.42	42.11	12.56	0.4454
97	751	9.33	38.03	12.94	0.4590
98	737	6.01	55.87	14.80	0.4970
99	787	5.33	40.83	2.82	0.0613
100	798	9.24	53.51	14.89	0.7364

Name of Division : Barabanki (Bareilly)

Challan No. : 09/159

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	842	4.32	53.54	13.19	0.3050
2	858	4.98	40.38	14.66	0.2948
3	840	4.81	50.19	14.19	0.3425
4	875	4.16	43.63	14.58	0.2646
5	867	3.58	53.70	14.95	0.2875
6	865	4.14	54.96	14.65	0.3333
7	899	4.46	51.42	15.25	0.3497
8	837	4.99	45.72	13.60	0.3104
9	859	5.26	47.71	14.65	0.3677
10	881	7.42	49.86	14.88	0.5506
11	802	8.84	57.44	14.64	0.7434
12	869	7	53.67	12.28	0.4613
13	849	7.95	62.53	15.02	0.7465
14	857	4.45	45.80	14.28	0.2910
15	807	7.12	46.39	13.95	0.4607
16	826	9.25	54.66	10.92	0.5522
17	838	5.49	48.05	14.13	0.3728
18	880	4.22	52.50	14.40	0.3190
19	830	4.24	39.28	14.15	0.2357
20	885	8.11	57.68	14.13	0.6610
21	841	4.71	52.79	14.40	0.3580
22	852	5.52	35.62	14.21	0.2793
23	843	9.61	59.07	14.69	0.8341
24	822	4.27	47.69	13.32	0.2711
25	855	8.09	39.68	13.48	0.4328
26	828	9.21	57.83	11.31	0.6023
27	873	4.27	47.57	15.24	0.3096
28	894	8.34	47.43	14.46	0.5721
29	811	8.51	51.49	14.99	0.6570
30	871	7.55	44.74	15.33	0.5179
31	801	9.79	55.76	14.10	0.7695
32	810	7.69	45.81	14.04	0.4945
33	863	4.06	51.24	14.38	0.2992
34	829	7.38	43.62	13.57	0.4369
35	813	4.73	43.03	11.78	0.2398
36	819	6.26	45.55	15.68	0.4470

37	834	8.94	56.00	11.45	0.5731
38	808	8.61	49.03	14.97	0.6320
39	856	2.4	42.25	12.17	0.1234
40	884	8.07	58.00	15.47	0.7239
41	861	4.36	49.40	14.05	0.3026
42	827	9.49	56.07	11.70	0.6225
43	895	7.96	48.16	13.91	0.5333
44	850	4.82	57.73	14.57	0.4054
45	818	7.47	50.99	13.92	0.5304
46	896	4.5	47.14	14.59	0.3096
47	831	9.32	56.64	11.67	0.6161
48	900	8.28	50.69	14.14	0.5937
49	820	6.89	53.56	14.97	0.5526
50	803	4.24	42.88	13.74	0.2497
51	876	7.53	47.18	13.95	0.4955
52	825	4.2	41.17	14.19	0.2453
53	836	5.03	42.37	13.48	0.2872
54	893	5.15	50.81	15.86	0.4151
55	823	8.16	49.21	14.20	0.5704
56	847	10.2	57.29	14.87	0.8690
57	809	6.59	46.07	13.54	0.4112
58	898	4.63	46.95	14.33	0.3116
59	883	3.47	43.67	13.60	0.2061
60	872	7.42	49.74	13.77	0.5083
61	891	4.94	57.79	14.41	0.4115
62	824	4.48	44.05	14.14	0.2791
63	812	7.06	50.72	14.61	0.5231
64	816	4.53	47.90	14.68	0.3185
65	887	8.53	47.45	13.76	0.5570
66	851	2.63	43.53	13.46	0.1541
67	817	6.66	48.19	14.82	0.4755
68	886	4.32	37.53	13.27	0.2151
69	806	7.18	41.18	15.13	0.4473
70	846	5.1	62.62	15.27	0.4876
71	890	4.54	50.56	13.90	0.3192
72	833	4.16	50.52	14.35	0.3016
73	839	8.82	48.40	14.21	0.6068
74	805	4.28	46.54	14.01	0.2791
75	866	3.63	42.00	15.50	0.2363
76	897	4.61	52.42	14.69	0.3550
77	845	8.27	66.27	15.24	0.8353
78	882	7.36	51.82	15.30	0.5836
79	878	4.56	48.13	13.78	0.3023
80	814	3.26	44.36	14.90	0.2155
81	832	9.4	56.78	11.87	0.6336
82	892	4.36	51.35	13.71	0.3069
83	835	4.5	37.99	13.48	0.2304
84	874	7.34	50.40	14.60	0.5402
85	844	8.27	55.87	15.79	0.7294
86	804	4.42	42.21	14.36	0.2679

87	821	7.11	53.24	15.12	0.5724
88	853	8.16	33.07	12.85	0.3468
89	860	4.56	48.10	13.41	0.2941
90	888	4.54	50.19	14.35	0.3269
91	870	4.08	44.40	13.09	0.2370
92	848	4.82	61.41	14.88	0.4405
93	864	4.43	64.98	14.44	0.4155
94	862	9.65	48.88	12.99	0.6128
95	889	3.21	52.39	14.16	0.2382
96	879	7.68	49.19	13.72	0.5184
97	815	3.93	44.54	13.31	0.2330
98	877	7.29	47.87	14.58	0.5088
99	868	4.02	42.09	14.28	0.2416
100	854	5.15	43.04	13.62	0.3018

Date: 03.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला गाजीपुर के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।